



# हमीरपुर पुलिस



दिनांक-30.07.2021

थाना- राठ

## हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 27.07.2021 को ग्राम इटायल में संदीप प्रजापति पुत्र गणेशी प्रसाद का शव कमला देवी बालिका विद्यालय के पीछे बबूल के झाड़ के पास मिला था। मृतक के दाहिने आंख के पास, सिर के पीछे तथा गले के पास चोटों के निशान थे। जिसके सम्बन्ध में थाना राठ पर मृतक के पिता द्वारा दिनांक 27.07.2021 को दी गई फौती सूचना के आधार पर मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के अनुसार एन्टी मोर्टम इन्जरी के कारण मृत्यु होना बताया गया। इसी क्रम में दिनांक 28.07.2021 को वादी मुकदमा गणेशी प्रसाद उपरोक्त ने अपने पुत्र की अज्ञात के द्वारा हत्या करने सम्बन्धित लिखित तहरीर थाना राठ पर दी गई, थाना राठ पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आजधार पर मु0अ0सं0 353/21 धारा 302 IPC में अभियोग पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राठ द्वारा सम्पादित की जा रही है। बयान वादी, गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल व पतारसी सुरागरसी से प्रकाश में आये अभियुक्त नीतेन्द्र कुमार पुत्र खलक सिंह निवासी ग्राम इटायल थाना राठ जिला हमीरपुर को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 30.07.2021 को ग्राम इटायल से गिरफ्तार किया गया। पूछ-ताछ के दौरान अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि आरोपी नीतेन्द्र कुमार तथा मृतक के परिवार के बीच में लगभग 01 वर्ष से बातचीत नहीं होती थी, इसी बीच आरोपी नीतेन्द्र एवं मृतक संदीप के मध्य ताश के पत्तों को खेलते समय झगडा हो गया था, मृतक संदीप ने उसे बेइज्जत किया था तथा मारने की धमकी भी दी थी। इसी बात को लेकर आरोपी नीतेन्द्र कुमार मृतक संदीप से चिढने लगा था। दिनांक 26.07.2021 को नीतेन्द्र ने फोन द्वारा मृतक संदीप को बुलाया तथा साथ लैट्रिन जाने की बात कही। दोनों कमला देवी विद्यालय के पीछे गये और आगे आगे संदीप चल रहा था तथा पीछे से नीतेन्द्र ने डण्डे से संदीप के सिर पर कई वार किये, जब संदीप गिर गया तो नीतेन्द्र ने वहीं पर पडी ईंट से भी सिर पर वार किया। आरोपी नीतेन्द्र की निशादेही पर मृतक का एक अदद मोवाइल रंग नीला REALME टच स्क्रीन व अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या करने में प्रयुक्त डंडा जो तीन टुकडों में टूटा हुआ था तथा एक अदद ईंट को बरामद किया गया। आरोपी नीतेन्द्र को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

### बरामदगी माल:-

- 1) मृतक का एक अदद मोबाइल REALME
- 2) हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद डण्डा (3 टुकडों में)
- 3) हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद ईंट

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 राठ राजेश चन्द्र त्रिपाठी
2. उ0नि0 यज्ञनारायण भार्गव
3. का0 सतेन्द्र पाल सिंह
4. का0 पंकज कुमार थाना राठ जनपद हमीरपुर।

